



भारतीय मानक ब्यूरो

(उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार)

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Govt. of India)

मानक भवन, 9 बहादुरशाह जफर मार्ग नई, दिल्ली-110002

Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

Phones: 23230131 / 23233375 / 23239402

Website: www.bis.org.in, www.bis.gov.in

DRAFT INDIAN STANDARD IN WIDE CIRCULATION

Reference : CED 43/T-115

Date : 20 October 2022

TECHNICAL COMMITTEE : Soil And Foundation Engineering, CED 43

To,

All concerned

Dear Madam/Sir,

The following document has been prepared by the Soil And Foundation Engineering Sectional Committee, CED 43. Please [click here](#) to view the document.

Document Number : CED 43 (21050) WC

Title of the document : Draft Indian Standard Rapid Moisture Meter for Rapid Determination of Water Content for Soil — Specification (First Revision of IS 12175)

(ICS No. 93.020; 13.080.20)

This document has following salient features which may require specific attention for your valuable comments:

1) *This standard covers the moisture meter used for rapid determination of water content from the gas pressure developed by the reaction of calcium carbide with the free water of the soil. The standard covers following ranges of percentage water content of rapid moisture meter: a) 0-25 percent; and b) 0-50 percent.*

Please examine the document and share your comments regarding further improvement in the document.

Last date for sharing the comments is : 20 November 2022

The comments should be shared in the prescribed template through this portal only; and the comments so received shall be taken up by the Sectional Committee for necessary action. For any other query, please write an email at ced@bis.gov.in to the undersigned at Bureau of Indian Standard, Manak Bhawan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.

In case no comments are received, we would presume your approval of the documents. However, in case we receive any comments on the document, the same shall be put up to the Sectional Committee for necessary action.

Thanking You,

Yours faithfully,
(Arun Kumar S.)
Sc. 'E'/Director and Head (Civil Engg.)
Email: ced@bis.gov.in

